



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 75 |

नई दिल्ली, शुकवार, मार्च 11, 1977 फाल्गुन 20, 1898

No. 75 |

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 1977/PHALGUNA 20, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March 1977

G.S.R. 110(E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is hereby published as required by the said sections for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government

DRAFT RULES

1 These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 1977

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in Schedule K, after item 19 and the entries relating thereto, the following item and entry shall be added, namely:—

Class of Drugs	Extent and Conditions of Exemption
"20. Tablets of Chloroquine Salts	The provisions of Chapter IV of the Act and Rules thereunder, which require them to be covered by a sale licence "

[No X 11014/1/77-D&MS]

AJOY BAGCHI, Jt Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1977

सां का० नि० 110(अ) केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियम बनाना चाहती है। जैसाकि उक्त धाराओं में अपेक्षित है, उक्त नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, तीस दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अधिध के पूर्व उक्त प्रारूप के बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति ने प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1977 है।
2. औषधि और प्रसाधन सामग्री, नियमावली, 1945 की अनुसूची ट में मद 19 के पश्चात् और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् —

औषधियों का वर्ग

"20. क्लोरोक्विन साल्ट्स की गोलियां

छट की सीमा और शर्तें

उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और उसके अधीन बने नियमों के उपबन्ध, जिनमें यह अपेक्षित है कि ये गोलियां विक्रय लाइसेंस पर ही बेची जाए।"

[स० एक्स 11014 1 77-डी एण्ड एम एस]

अजय बागची, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977